



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2542]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2014/अग्रहायण 21, 1936

No. 2542]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3173(अ).—यतः दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में इसकी समीक्षा कार्य के भाग के रूप में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 5 जुलाई, 2014 की का.आ. सं. 1700(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पैंतालीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां सुझाव/आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्तियां/वसुझा प्राप्त नहीं हुए और इसका दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन किया गया।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

सम्पादन एवं अद्यतन से संबंधित संशोधन:

पैरा/क्र.सं.	दि.मु.यो.-2021	
	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन
1	2.	3.
1	अध्याय 2.0 जनसंख्या एवं रोजगार	
	2.1 जनसंख्या	
	तथापि, भूमि की आवश्यकता आधारिक संरचना का प्रावधान.....230 लाख की अनुमानित जनसंख्या के लिए निर्धारित किया जाए।	निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाना है : 2011 की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की जनसंख्या 167.9 लाख थी। वर्ष 2001-2011 के दौरान, दिल्ली की शहरी जनसंख्या में 21.2 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर से वृद्धि हुई।
2	अध्याय 13.0 सामाजिक आधारिक संरचना	
	तालिका 13.2 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विकास नियंत्रण	
	विस्तर-आधारित श्रेणियों को हटाने तथा चार श्रेणियों को एक श्रेणी में मिलाने की दृष्टि से का.आ. 2893(अ) दिनांक 23.9.2013 के द्वारा पुनः संख्यांकन की आवश्यकता है।	पुनः संख्यांकन निम्नलिखित है : क्र.सं.- (1) से (4) को (1) क्र.सं.- (5) से (7) को (2) से (4)
3.	संक्षिप्तियों की सूची	
	1. दि.मु.यो-दिल्ली मुख्य योजना से- 70. डी/सी ट्रांसमिशन डायरेक्ट करेंट ट्रांसमिशन	क्र.सं. 70 के बाद संक्षिप्तियों की सूची में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाने हैं: 71. नि.घ.आ.क्षे. निम्न घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र 72. वि.सं.- विकासकर्ता संस्था 73. टी.ओ.डी- ट्रान्जिट ऑरिएंटेड डेवलपमेन्ट 74. सा.से.का- सामुदायिक सेवा कार्मिक
	अन्य	
4.	दि.मु.यो-2021 में 'हैक्टेयर' के लिए 'हैक्ट' और 'है' दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है।	दि.मु.यो-2021 में कहीं भी उपयोग किए गए शब्द 'हैक्टेयर'/'हैक्ट' को 'है' के रूप में सही किया जाए।
5.	दि.मु.यो-2021 में, कई स्थानों पर दि.न.नि की शब्दावली का उपयोग किया गया है। दि.न.नि की त्रिशिखन के परिदृश्य में, इसे तदनुसार बदला जाए।	'दि.न.नि. को 'संबंधित नगर निकाय' से बदला जाए।
6.	पृष्ठ संख्यांकन : सतत् संख्यांकन	अध्याय-वार संख्यांकन (अध्याय नाम)-(पृष्ठ सं.) उदाहरण के लिए अध्याय-2 में संख्यांकन को 2-1, 2-2 इत्यादि के रूप में पढ़ा जाए।
7.	संलग्नक का संख्यांकन अध्याय 7.0- में 'उद्योग' संलग्नक (i) से (iii), अध्याय के अंत में दिए गए हैं। मुख्य दस्तावेज के संलग्नक भी इसी प्रकार संख्यांकित किए गए हैं। अतः, अध्याय-वार संलग्नक संख्यांकन को प्रस्तावित किया गया है।	अध्याय संख्या को आरंभ में जोड़कर अध्यायों के संलग्नक को संख्यांकित करना, उदाहरण के लिए, अध्याय-9 के संलग्नक को 9(1), 9(II) इत्यादि के रूप में संख्यांकित किया जाएगा। अध्यायों में संलग्नक :

		(i) 4.0 आश्रय (ii) 7.0 उद्योग (iii) 9.0 पर्यावरण (iv) 12.0 परिवहन (v) 15.0 मिश्रित उपयोग विनयम
--	--	--

[सं. के-12011/12/2014-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2014

S.O. 3173(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 1700(E) dated 5th July, 2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within a period of forty-five days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections/suggestions received with regard to the proposed modifications and was approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS RELATED TO EDITING AND UPDATING:

Para/S.No	MPD-2021	
	Existing provisions	Proposed Amendments/Modifications
1	2	3
1	CHAPTER 2.0 POPULATION AND EMPLOYMENT	
	2.1 Population	
	However, requirement of land, provision of infrastructure...be planned for the projected population of 230 lakh.	Following sentence to be added: <i>As per 2011 Census, NCT of Delhi had a population of 167.9 lakh. During 2001-2011, the urban population of Delhi increased at 21.2% decadal growth rate.</i>
2	CHAPTER 13.0 SOCIAL INFRASTRUCTURE	
	Table 13.2 Development Controls for Health Facilities	
	In view of removing bed-based categories and merging of four categories into single category, vide S.O. 2893(E) dated 23.9.2013,	Renumbering as follows: Sl. No. – (1) to (4) as (1) Sl. No. (5) to (7) as (2) to (4)

	renumbering is required.	
3	List of Abbreviations	
	1. MPD-Master Plan for Delhi -to- 70. D/C Transmission-Direct Current Transmission	Following terms to be added to the list of Abbreviations after Sl. No. 70: 71. LDRA-Low Density Residential Area 72. DE- Developer Entity 73. TOD-Transit Oriented Development 74. CSP-Community Service Personnel
	Others	
4	Both the terms 'hect.' and 'ha' used in MPD-2021 for 'hectare'.	The term 'hectare'/'hect.' Anywhere used in MPD-2021 to be corrected as ' ha '.
5	In MPD-2021, MCD terminology has been used at number of places. In view of trifurcation of MCD, the same will be replaced accordingly.	' MCD ' to be replaced by ' Concerned Municipal Body '
6	Page Numbering: continuous numbering	Chapter-wise numbering [(Chapter Name)-(Page No.)] For instance, numbering in Chapter-2 would read as 2-1, 2-2, etc.
7	Numbering of Annexure In Chapter 7.0 – 'Industry', Annexure (I) to (III) are given at the end of the Chapter. Annexure of the main document are also numbered similarly. Thus, Chapter-wise Annexure numbering has been proposed.	Numbering of Annexure to Chapters by prefixing Chapter No. For instance, Annexure to Chapter-9 would be numbered as 9(I), 9(II), etc. Annexure in Chapters: i. 4.0 Shelter ii. 7.0 Industry iii. 9.0 Environment iv. 12.0 Transportation v. 15.0 Mixed Use Regulations

[No. K-12011/12/2014-DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.